



सतयुगी राज्य का मेवा

[Source: www.brahma-kumaris.com](http://www.brahma-kumaris.com) (Main Website) | www.bkgoogle.com (BK Google)

- **Satyugi Rajya ka Mewa**

शिव बाबा से बच्चों को, भरपूर मिलता है प्यार
सबके मन में बजती रहती, खुशियों की झंकार

बाबा का प्यार कभी, जुबां से बतलाया न जाए
खुशियाँ इतनी लुटाता, जो गिनाई कभी न जाए

प्यार ही संग बाप देते, बच्चों को रूहानी शिक्षा
शिक्षा देकर माया से करते, हम बच्चों की रक्षा

बाप से दिव्य जन्म पाकर, बन गए मीठे बच्चे
कसम लेते हैं बाप समान, रहेंगे सदा हम सच्चे

बाबा के साथ करेंगे, विश्व कल्याण का कर्तव्य
इसीलिए मिला हमको, जन्म अलोकिक दिव्य

विश्व परिवर्तन की हमने, जगाई है मन में उमंग
भर देंगे सबके जीवन में, सुख शांति का हर रंग

खुशी मनाओ अब, आने वाला है राज्य अपना
श्रीमत पर करेंगे पूरा हम, बाबा का यह सपना

अपने मन की गहराई में, बाबा की याद समाई
आने वाले सतयुग की, आपस में देते हैं बधाई

अपने राज्य में जाने की, करते हम सब तैयारी
सभी बनते जा रहे, सम्पूर्ण स्वराज्य अधिकारी

श्रीमत पर बनाते हम, अपनी निर्विघ्न अवस्था
विघ्न विनाशक बने रहने की, कर रहे व्यवस्था

स्व परिवर्तन हम करते हैं, यथा शक्ति अनुसार
भरते जाते खुद में, निर्विघ्नता के सभी संस्कार

पुरुषार्थ करते मन की, आसक्तियाँ मिटाने का
कर लिया इरादा, विघ्नों को मार्ग से हटाने का

अटेंशन से मिटायेंगे हम, सभी विघ्नों का साया
अब हम नहीं डरेंगे, चाहे कोशिश कर ले माया

एक एक संकल्प की, हम चेकिंग करते जाएंगे
अटेंशन से पवित्र संकल्प, खुद में भरते जाएंगे

सच्चे दिल से हम बच्चों ने, मानी बाप की बात
संगमयुग में पकड़े रखेंगे, अपने बाबा का हाथ

शिव संदेश सुनाकर हम, करेंगे विश्व की सेवा
विश्व सेवा करके लेंगे, सतयुगी राज्य का मेवा

ॐ शांति।

by: BK Mukesh bhai - bkmukesh1973@gmail.com

For More **Poems**, visit – www.bkofficial.com/poems



OR scan this QR code with your phone camera ->